



हाइयर स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षा के लिए व्यावहारिक सहायता

छात्रों और माता पिता के लिए जानकारी

दी बोर्ड ऑफ स्टडीज ने हाइयर स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षा के छात्रों की मदद के लिए व्यावहारिक समर्थन का एक कार्यक्रम शुरू किया है. यह व्यावहारिक सहायता जिसे प्रावधानों/सुविधाओं के नाम से जाना जाता है, छात्रों को परचा पढ़ने में और उनके उत्तर लिखने में मदद मिलती है. सुविधाओं में आराम का समय और अतिरिक्त समय भी मिलता है. छात्र के परिणाम पर किसी भी सुविधाओं का उपयोग नहीं लिखा जाता है.

छात्रों को नीचे दिए गए सुविधाओं की आवश्यकता हो सकती है:

- एक स्थायी हालत - जैसे कि दैबीटीज/(मधुमेह) या पढ़ने में कठिनाई
- एक अस्थायी हालत - जैसे कि टूटी हुई बाजू
- एक आंतरायिक हालत - जैसे कि लंबे समय बैठे रहने पर पीठ में दर्द होना

सुविधाओं का उपयोग करना शर्म की बात नहीं है. 5000 से अधिक HSC छात्र प्रति वर्ष सुविधाओं का प्रयोग करते हैं. सुविधाओं की मदद से छात्र आंकड़े देने वालों को दिखा सकते हैं कि वे क्या जानते हैं और कर सकते हैं.

सुविधाओं के आवेदन के लिए स्कूल के अध्ययन बोर्ड ऑफ स्टडीज को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते हैं यह आवेदन हमें बताता है कि छात्र किन सुविधाओं के लिए अनुरोध कर रहे हैं और हाल ही के प्रमाण भी शामिल होते हैं. प्रमाणों में चिकित्सा रिपोर्ट, पढ़ने के परिणाम, परिणाम वर्तनी, लेखन नमूने तथा शिक्षक टिप्पणी शामिल हो सकते हैं.

अधिकतर प्रमाण स्कूल द्वारा एकत्र किया जा सकता है, परन्तु माता पिता की भूमिका का स्वागत है और उसकी आवश्यकता है. माता पिता शिक्षालय के साथ बात कर के, छात्र की आवश्यकताओं का वर्णन करके, तथा चिकित्सा या अन्य दुसरे रिपोर्ट प्रदान करके मदद करते हैं.

सुविधाओं के लिए शिक्षालय द्वारा पहली टर्म के अंत तक बोर्ड ऑफ स्टडीज को आवेदन जमा करना चाहिए. देर से भेजे गए आवेदन पत्र आपत्कालीन स्थिति में स्वीकार किए जाते हैं जैसे कि परीक्षा के समय बाजू का टूटना.

एक बार बोर्ड ऑफ स्टडीज ने निर्णय ले लिया के किन सुविधाओं को मंजूर या नामंजूरी कर रहे हैं, एक निर्णय पत्र शिक्षालय को प्रदान किया जाता है.

यदि आप या शिक्षालय बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो शिक्षालय के लिए एक अपील दर्ज करना संभव है. अपील में बताना चाहिए कि बोर्ड का निर्णय क्यों अनुचित है तथा अपील के समर्थन में नए प्रमाण देने चाहियें.

यदि आपको लगता है कि आपको या आपके बच्चे को हाइयर स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षा पूरी करने में मदद की आवश्यकता हो सकती है, कृपया इस विषय में वर्ष सलाहकार, स्कूल काउंसलर अथवा शिक्षक से चर्चा करें.